



स्वच्छ भारत अभियान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

द.पू.म.रे.बिलासपुर में दिनांक 16 से 30 नवम्बर 2016 तक विशेष सफाई पखवाड़ा, सभी रेलवे कालोनियों में आयोजित किया गया जिसमें -
(संदर्भ: रेलवे बोर्ड पत्र क्र. 2015/EnHM/06/12 दिनांक: 12.04.16)

- सफाई अभियान की शुरुवात में रेल कर्मियों एवं कालोनीवासियों को स्वच्छ भारत मिशन की शपथ दिलाई गई।
- रेलवे कालोनियों में सड़कों, नालियों एवं बंद पड़ी नालियों की सफाई करके इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाया गया।
- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रेलवे कालोनियों की गंदी जगहों को चिन्हित किया गया और उनकी गहन सफाई की गई।
- सफाई अभियान के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कुल 80449 क्यूबिक फीट कचरा रेलवे क्षेत्र से बाहर फेंका गया।
- सफाई अभियान के दौरान रेलवे क्वार्टर के पास की घास, सड़कों के किनारे तथा खेल के मैदान और अन्य खुली जगहों पर घास फूस को कालोनीवासियों और रेलवे स्टाफ की मदद से निकाला गया।
- समस्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सफाई अभियान के दौरान 142281 रनिंग फीट नालियों की सफाई की गई।





स्वच्छ भारत अभियान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

- अभियान के दौरान, मच्छरों और मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए लार्वा रोधी स्प्रे तथा घर घर कीटनाशक दवाओं का सभी रेलवे कालोनियों में छिड़काव किया गया ।
- आवश्यकतानुसार रेलवे कालोनियों में सेप्टिक टैंक, सीवर लाईन और मेन होल की सफाई का कार्य किया गया ।
- इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से कूड़ादानों की मरम्मत/ पेंटिंग का कार्य किया गया ।
- इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से कूड़ादानों की मरम्मत/ पेंटिंग का कार्य किया गया ।
- रेलवे कालोनियों और रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति की सतत निगरानी रखी गई ।
- वैक्टीरिया परीक्षण के लिए पानी के 105 सैंपल लिये गये और उनका परीक्षण किया गया और 1631 सैंपल का क्लोरीन परीक्षण किया गया ।
- स्वच्छता अभियान के बैनर तथा पोस्टर संबंधित जगहों पर चिपकाये गये और कालोनी वासियों में स्वच्छता अभियान से संबंधित पर्चे बाँटे गये ।
- उपरोक्त गतिविधियों में सभी रेलवे कर्मियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई ।





स्वच्छ भारत अभियान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

